

क्वींसलैंड में गाड़ी चलाना

यदि आप विदेश से क्वींसलैंड में यात्रा कर रहे/ही हैं, तो आप हमारी सड़कों पर गाड़ी चला सकते/ती हैं बशर्ते आपके पास एक वैध विदेशी लाइसेंस हो। आप केवल वही वाहन चला सकते/ती हैं, जिन्हें चलाने के लिए आपका विदेशी लाइसेंस प्राधिकरण आपको अनुमति देता है।

सड़क के नियम

क्वींसलैंड और अन्य राज्यों में सड़क के समान नियम हैं, किंतु कुछ मामूली भिन्नताएँ हैं। ये नियम आपके स्वदेश से अलग हो सकते हैं। सड़क के नियमों को तोड़ने पर कड़े दंड लागू होते हैं, जिन्हें क्वींसलैंड पुलिस सेवा (Queensland Police Service) और अनेकानेक कैमरा पहचान उपकरणों के माध्यम से लागू किया जाता है।

बाएँ रहें

- सड़क की बाईं ओर गाड़ी चलाएँ।

ओवरटेकिंग

- आप दूसरे वाहन को केवल तभी ओवरटेक कर सकते/ती हैं, जब आप अपनी ओर आने वाले सभी यतायात को साफ देख पाएँ और आप सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकें। आप किसी अन्य वाहन को तभी ओवरटेक कर सकते/ती हैं, जहाँ सड़क की सेंटर लाइन मार्किंग को सिंगल ब्रोकन लाइन से दर्शाया गया है और ओवरटेक करना सुरक्षित है। यदि सेंटर लाइन को दो अनब्रोकन लाइनों से दर्शाया गया है, तो यह अनिवार्य है कि आप ओवरटेक न करें।

लाल बत्ती पर रुकना

- आपके लिए लाल बत्ती पर रुकना अनिवार्य है (और आपको तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक बत्ती हरे रंग में न बदल जाए), लाल बत्ती पर कोई फ्री टर्न्स नहीं होते हैं। आपके लिए एम्बर बत्ती पर रुकना भी अनिवार्य है, जब तक ऐसा करना असुरक्षित न हो।

बहुत तेजी से गाड़ी चलाना

- गति सीमाएँ किलोमीटर प्रति घंटे में होती हैं, मील प्रति घंटे में नहीं, और अधिकतम सीमाएँ लागू हैं। दो डिफ़ॉल्ट सीमाएँ लागू हैं – स्थानीय, निर्मित आवासीय क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ग्रामीण सड़कों व हाइवेज़ में 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जब तक अन्यथा संकेत प्रदर्शित न हों।

मोबाइल फोन का उपयोग करना

- गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर इसका उपयोग करना गैर-कानूनी है, जिसमें कॉलें करना या प्राप्त करना, टेक्स्ट भेजना, गेम्स खेलना या वेब ब्राउज़ करना शामिल है। चालक के शरीर के किसी भी हिस्से पर फोन रखा हुआ नहीं हो सकता है।

एल्कोहल और मादक-पदार्थों के सेवन के बाद गाड़ी चलाना

- क्या आप एल्कोहल या मादक-पदार्थों का सेवन करते/ती हैं? गाड़ी कभी न चलाएँ। क्वींसलैंड में एल्कोहल या मादक-पदार्थों के प्रभाव में होकर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में समकक्ष ओपन लाइसेंस-धारकों के लिए रक्त/श्वास एल्कोहल संकेंद्रण स्तर 0.05 प्रति शत है और समकक्ष लर्नर/प्रोविज़नल/प्रोबेशनरी लाइसेंस-धारकों के लिए शून्य है।

सीटबेल्ट और चाइल्ड रिस्ट्रेंट

- वाहन में चालक और यात्रियों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है, और यदि 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है, तो उसके आकार और भार के अनुरूप चाइल्ड रिस्ट्रेंट पहनना अनिवार्य है।
- सीटबेल्ट को आपके कंधे के ऊपर से होकर छाती से पार और कूल्हों पर नीचे बक्कल लगाकर पहना जाना चाहिए।

हेलमेट

- मोटरसाइकिल, मोपेड/स्कूटर, काड बाइक, बाइसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, ई-स्कूटर या इस तरह के वाहन की सवारी करते समय आपके लिए हर समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसमें मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले यात्री भी शामिल हैं।

थकावट होते हुए गाड़ी चलाना

- गाड़ी चलाने से पहले अच्छी तरह से आराम करना सुनिश्चित करें, और यदि आप थके हुए/ई हैं तो गाड़ी न चलाएँ। लंबी या छोटी यात्राओं के दौरान आपको धीरे-धीरे थकावट आ सकती है और यह केवल गाड़ी चलाते हुए नींद आने से ही संबंधित नहीं है। एकाग्रता में थोड़ी सी चूक हो जाने पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- हर 2 घंटे बाद अंतराल लें, और यदि संभव हो तो गाड़ी चलाना साझा करें।

बाढ़ और आग

- बाढ़ के पानी से होकर गाड़ी न चलाएँ।
- क्वींसलैंड में गर्मियों का एक दुःखद हिस्सा बुशफायरें होती हैं। यदि दृश्यता कम हो जाए, तो अपनी हेडलाइट्स (या हैज़र्ड लाइट्स) ऑन करें।

ब्रेकडाउन और आपातकालीन सेवाएँ

- पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में आपात सेवाओं (पुलिस, एम्बुलेंस और आग) के लिए 000 डायल करें। केवल आपात स्थिति में ही 000 डायल करें।
- यदि आपका वाहन खराब हो जाता है, तो अपने वाहन को इमरजेंसी स्टॉपिंग लेन, ब्रेकडाउन बे, या सड़क के किनारे पर रोकें। अपनी हैज़र्ड लाइट्स ऑन करें और यदि सुरक्षित हो, तो वाहन से बाहर निकलें तथा सहायता आने तक सुरक्षा अवरोध के पीछे प्रतीक्षा करें। यदि अवरोध मौजूद नहीं है, तो सहायता आने तक अपने वाहन में ही रहें, बशर्ते ऐसा करना सुरक्षित हो। पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में रोडसाइड सहायता के लिए 13 11 11 डायल करें, (24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन)। यदि आपके पास किराए का वाहन है, तो रोडसाइड सहायता के लिए कंपनी के निर्देशों का पालन करें।
- यदि आप किसी ऐसे आपात प्रतिक्रिया वाहन के बगल से होकर गुजरते/ती हैं जिसकी फ्लैशिंग लाइट ऑन है, तो आपको दूरी बनाकर धीमा कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें और जिन लोगों को वे सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह मिलने में सहायता हो।